

राजभाषा विभाग की जून, 2018 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (i) देश के विभिन्न नगरों में 90 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन की स्थिति और उसमें सुधार के उपायों पर चर्चा की जाती है।
- (ii) विश्व हिंदी सम्मेलन, मारीशस में 'भोपाल से मारीशस' के अंतर्गत दो लेख 'प्रशासन में हिंदी' तथा 'विधि एवं न्याय में हिंदी एवं भारतीय भाषाएं' विषय पर हिंदी लेख तैयार किए गए।
- (iii) विभाग में जून, 2018 माह में 42 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (iv) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के कार्यशाला एकक द्वारा दिनांक 04/06/2018 से 08/06/2018 तक 466वीं तथा दिनांक 18/06/2018 से 22/06/2018 तक 467वीं गहन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 37 कार्मिकों ने भाग लिया।
- (v) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के कार्यशाला एकक द्वारा दिनांक 25/06/2018 से 29/06/2018 तक राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत लिपिक वर्गीय पुनश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- (vi) दिनांक 11 जून से 13 जून, 2018 तक सी डेक पुणे में 'प्रवाह' पाठ्यक्रम का मोबाइल ऐप परीक्षण किया गया।
- (vii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त सूची में 'राजभाषा भारती' का नाम शामिल करवाया गया।
- (viii) विभिन्न गृह पत्रिकाओं के लिए माननीय गृह मंत्री / सचिव / संयुक्त सचिव के संदेश तैयार कर भेजे गए।
- (ix) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा जून, 2018 माह में 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें कुल 90 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया।
- (x) जून 2018 में कुल 3,099 मानक पृष्ठों की अनूदित सामग्री विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को प्रेषित की गई।
- (xi) संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के पश्चात केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के एक उप निदेशक को संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियमित पदोन्नति दी गई।
